



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 5 पटना, बुधवार, 12 माघ 1938 (श0)  
1 फरवरी 2017 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	5-5	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।		6-6
पूरक	---	
पूरक-क		7-9

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

### उद्योग विभाग

#### अधिसूचनाएं

25 जनवरी 2017

सं० 3(स०)/उ०स्था०(स्थानान्तरण)02/2015-260—श्री प्रेमचन्द्र झा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली(हाजीपुर) सम्प्रति प्रतिनियुक्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण(छपरा) को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण(छपरा) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

20 दिसम्बर 2016

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6598—श्री श्याम नारायण राम, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-6600/-) को उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए उप उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6599—श्री अजय कुमार महतो, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-6600/-) को उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6600—मो० अनीस, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-6600/-) को उप उद्योग निदेशक/महाप्रबंधक (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी०(सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

20 दिसम्बर 2016

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6595—श्री बलराम सिंह, कार्यकारी निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, भागलपुर (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) को संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी०बी०-4, 37,400-67,000/-, ग्रेड पे-8700/-) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6596—श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण(छपरा) (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) को संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी०बी०-4, 37,400-67,000/-, ग्रेड पे-8700/-) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

साथ ही श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, संयुक्त उद्योग निदेशक को हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं० 3(स०)/उ०स्था०(प्रोन्नति)06/13-6597—श्री रमेश कुमार ठाकुर, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (वेतनमान पी०बी०-3, 15,600-39,100/-, ग्रेड पे-7600/-) को संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी०बी०-4,

37,400-67,000/-, ग्रेड पे-8700/-) के पद पर औपबधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थपित किया जाता है।

यह औपबधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0(सी0) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

3 नवम्बर 2016

**सं० 3/उ0स्था0(प्र0-ए0सी0पी0)15/10-5020**—डॉ० विजय कुमार, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 27-09-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 27-09-2003 से वेतनमान 6500-10500/- में प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**सं० 3/उ0स्था0(प्र0-ए0सी0पी0)15/10-5021**—डॉ० गणेश चन्द्र साहा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 01-10-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2003 से वेतनमान 6500-10500/- में प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 01-10-2011 को 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2011 से पी0बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे-4800 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**सं० 3/उ0स्था0(प्र0-ए0सी0पी0)15/10-5022**—श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 01-10-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2003 से वेतनमान 6500-10500/- में प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 01-10-2011 को 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2011 से पी0बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे-4800 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**सं० 3/उ0स्था0(प्र0-ए0सी0पी0)15/10-5023**—श्रीमती मिथिलेश कुमारी झा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 25-09-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 25-09-2003 से वेतनमान 6500-10500/- में प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**सं० 3/उ0स्था0(प्र0-ए0सी0पी0)15/10-5024**—श्रीमती सुनीता मिश्रा, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 18-04-2006 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 18-04-2006 से वेतनमान 6500-10500/- में प्रथम ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 18-04-2014 को 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 18-04-2014 से पी0बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे-4800 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

19 सितम्बर 2016

**सं० 3(स०)/उ0स्था0(वेतन संशोधन)01/2015-4392**—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-6720 दिनांक 01-07-2013 के आलोक में विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत निम्नांकित परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक/समकक्ष पद धारकों द्वारा परियोजना प्रबंधक, वेतनमान पी0बी0-2(9300-34800/-) एवं ग्रेड पे-4800/- के पद पर 04(चार) वर्षों की सेवा पूरी करने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पी0बी0-3(15600-39100/-) एवं ग्रेड पे-5400/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	नाम/पदनाम एवं पदस्थापन स्थान	4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं देय वेतनमान+ग्रेड पे
1	2	3
1.	श्री दिनानाथ सिंह, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	06-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
2.	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास, सासाराम।	09-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
3.	श्री जर्नादन शर्मा, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया।	06-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
4.	श्री राजकुमार शर्मा, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	19-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-

क्र०	नाम/पदनाम एवं पदस्थापन स्थान	4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं देय वेतनमान+ग्रेड पे
1	2	3
5.	श्री संजय कुमार, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा।	13-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
6.	श्री अनिल कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर, भभुआ।	19-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
7.	श्री विनय कुमार मल्लिक, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी।	20-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
8.	श्री उदय सिंह, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान।	06-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
9.	श्री एस0 मुजफ्फर रजी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	19-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
10.	श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया।	09-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
11.	श्री रामशंकर पांडेय, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा।	18-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-
12.	श्री शिशुकांत मिश्रा, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा।	10-01-2016, पी0बी0-3(15600-39100/-) + ग्रेड पे-5400/-

2. प्रस्ताव में सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

30 अगस्त 2016

सं० 3/उ०स्था०(स्थानान्तरण)06/12-4057—श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुये श्री अलख कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, उप-सचिव।

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर 2016

सं० 2/पी05-20-04/2016गृ0आ0-9397—श्री विनय कुमार सिन्हा, परिचारी प्रवर (सेवानिवृत्त), वरीयता क्रमांक-830 पुराना, की प्रोन्नति वैशाली औद्योगिक थाना कांड सं०-502/03 न्यायालय में लंबित रहने के आधार पर पूर्व के विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा मुहरबंद लिफाफा में रखा गया है। न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने के आधार पर महानिदेशक पर्वद के द्वारा उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति की प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) द्वारा प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा के आलोक में श्री विनय कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त, परिचारी प्रवर को इनके कनीय श्री रंजीत पाण्डेय (वरीयता क्रमांक-832) को पुलिस उपाधीक्षक में दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 06.12.2013 से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

3. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं०-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2017

सं० 3(स०)/उ०स्था०(विविध-चारित्री)22/13-259—बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों का गोपनीय चरित्र अभियुक्ति का प्रायः एक ही वरीय पदाधिकारी द्वारा अभिलेखन किये जाने के फलस्वरूप सही मूल्यांकन एवं ससमय प्रोन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 से गोपनीय चरित्र अभियुक्ति के स्थान पर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) को लागू किया जाता है।

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं इसका दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा जिसे प्रतिवेदित पदाधिकारी अर्थात् बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारी डाउनलोड कर तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

आदेश दिया जाता है कि बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारीगण एवं सभी संबंधितों को इसकी सूचना दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 46—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं  
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

---

सूचना

No. 112—I, NISHI CHATTERJEE D/o Sri Vidya Nandan Singh, Mother's Name Smt Kamini Singh R/o 41, Defence Colony Kankarbagh, P.S- Kankarbagh, District- Patna, do hereby declared Vide-Affidavit No. 28 Dated 29-10-2016 that i will be known as infuture NISHI instead of Nishi Chatterjee.

NISHI CHATTERJEE.

No. 113—I, SURABHI, D/o- Sri Navin kumar Singh Magadh Niketan, Rajiv Nagar, Road No.-6 P.o-keshri Nagar, Patna-800024 (Bihar). Vide Affidavit. No. 7662 Dated 19.10.2016 will be known as Surabhi Singh for all future purposes.

SURABHI.

No. 114—I, RAJAN KUMAR S/o Late Man Mohan Choudhary at Mouzmabad Po Narayanpur Dist. Bhagalpur, Bihar. Affidavit. No. 1267 Dated 25.11.2016 Shall be known as Rajan Kumar Choudhary.

RAJAN KUMAR.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

## पूरक(अ0)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

8 नवम्बर 2016

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)गया-14/2016-290250-ग्रा0वि0—श्री विनोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोच (गया) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 22.07.2016 को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने तथा निगरानी थाना कांड सं0- 73/16 दर्ज होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग- 4 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0- 281232 दिनांक 11.08.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 22.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्री कुमार के द्वारा दिनांक 28.09.2016 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 29.09.2016 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0-290187 दिनांक 04.11.2016 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में निलम्बनमुक्त कर योगदान स्वीकृत किया गया।

3. चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया जिसके लिए उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-73/16 दर्ज है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक 29.09.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

## 4 जनवरी 2017

सं० ग्रा०वि०-14(नि०को०)गया-14/2016-290187-ग्रा०वि०—श्री विनोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोच (गया) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 22.07.2016 को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने तथा निगरानी थाना कांड सं०-73/16 दर्ज होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं०-281232 दिनांक 11.08.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 22.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्री विनोद कुमार दिनांक 28.09.2016 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 29.09.2016 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

3. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 29.09.2016 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राधा किशोर झा, अपर सचिव।

## 19 जनवरी 2017

सं० ग्रा०वि०-14(द०)सम०-02/2016-297453-ग्रा०वि०—श्री अजीत कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर (समस्तीपुर) सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड (सीतामढ़ी) के विरुद्ध उनके उजियारपुर (समस्तीपुर) के पदस्थापन काल में अनधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना मुख्यालय से अनुपस्थिति तथा विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप के लिए में उनसे स्पष्टीकरण की माँग पत्रांक-242239 दिनांक 14.08.2015 द्वारा की गयी।

श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 24.08.2015 में अंकित किया कि उन्होंने पिता ईलाज हेतु दिनांक 04.02.2015 से 06.02.2015 तक का आकस्मिक अवकाश के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को आवेदन दिया। पिता के ईलाज के दौरान पीलिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण चिकित्सक के परामर्श के आलोक में अवकाश बढ़ाने हेतु आवेदन दिया। इस प्रकार ये कर्तव्य से दिनांक 04.02.2015 से 31.03.2016 तक अनुपस्थित रहे एवं दिनांक 01.04.2016 को योगदान किये।

प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए दोषी पाया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में श्री कुमार को 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

उक्त शास्ति संबंधित सूचना उनके चारित्री/सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाय।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
महेन्द्र भगत, उप-सचिव।

सं० भवन/10/आरोप-(द०बि०)-36/2016-390(भ०)  
भवन निर्माण विभाग

## संकल्प

## 16 जनवरी 2017

श्री जगत पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, गया के विरुद्ध श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक-7298 दिनांक 06.08.2016 द्वारा श्री पासवान के पटना भवन प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के अतिरिक्त 771 कार्य बिना विभागीय



अनुमति/स्वीकृति के कराने एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कराये जाने वाले कार्यों के लिए प्राप्त आवंटन ₹1267.00 लाख में से बगैर प्राथमिकता निर्धारण/विभागीय स्वीकृति के सृजित दायित्व के विरुद्ध ₹718.96 लाख का अनियमित भुगतान करने का वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित है।

2. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-8182(भ0) दिनांक 23.08.2016 द्वारा श्री पासवान से उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री पासवान के पत्रांक-1393 दिनांक 03.09.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9853(भ0) दिनांक 05.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना से मंतव्य की माँग की गई। अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक-8516 दिनांक 19.11.2016 के द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री पासवान द्वारा बिना विभागीय स्तर से प्राथमिकता सूची का अनुमोदन कराये निविदा आमंत्रित करना एवं एकरारनामा पर भुगतान किया जाना, वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

3. श्री पासवान के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त आरोप प्रपत्र-“क” के साथ संलग्न साक्ष्यों एवं आरोप संख्या-01 से 02 के संबंध में समीक्षोपरान्त पाये गये तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पासवान के विरुद्ध संलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार-राजपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 46—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>